

COVID-19 से संबंधित जानकारी

शारीरिक दूरी का अनुपालन करें

अपने और दूसरों के बीच कम से कम 2 मीटर की दूरी (लगभग एक हॉकी स्टिक की लंबाई) रखें। यदि आप खाँसने या छींकने वाले व्यक्ति के बहुत निकट हैं, तो आपके लिए साँस में छोटी बूंदों को अंदर लेने का खतरा बढ़ जाता है जिनमें संभावित रूप से COVID-19 वायरस हो सकता है।

स्वस्थ रूप से फिर से खुलने के लिए समर्थन देने में सहायता करें।

जनस्वास्थ्य उपायों का अनुपालन करके, शारीरिक दूरी और अच्छी स्वच्छता बनाए रख करके और जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना जारी रख करके स्वस्थ रूप से फिर से खुलने के लिए समर्थन दें।

सूचित रहें

alberta.ca/covid19

Alberta